## सांवरा | by Santosh Mahant

हार कर दर पे जो आता है सांवरा उनको अपनाता है थोड़े आंसू और मन में भाव लिए श्याम चरणों में जो आता है हार कर दर पे ......

श्याम देता सहारा वो ही तो दे आसरा बीच मंझधार जो कश्ती किनारा भी दे सांवरा हर दम हारे का देता साथ है ऐसा श्याम सरकार है जिनकी साँसों में नित प्रेम है सांवरा उनको अपनाता है हार कर दर पे ...........

ग़म के बदल जब छाये लीले चढ़ वो आता है अपने भक्तों के जीवन के दुखड़े मिटा जाता है आज के आंसू कल मोती बने अंश को हर पल विश्वास है जिनकी आँखों में नित प्रेम है सांवरा उनको अपनाता है हार कर दर पे ......

घडी खुशियों की जब आये संग संग झूमता गाता है संतोष के हर एक पल पल का साथी वो बन जाता है जीवन बिगया महकता है मन में वो बस जाता है जो इन्हे मानता मीत है सांवरा उनको अपनाता है हार कर दर पे ......

 $\frac{\text{https://bhaktivandana.com/lyrics/\%e0\%a4\%b8\%e0\%a4\%be\%e0\%a4\%be\%e0\%a4\%b5\%e0\%a4\%b0\%e0\%a4\%be-b}{\text{y-santosh-mahant/}}$